

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 618]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1725.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, महिदपुर, जिला उज्जैन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, महिदपुर, जिला उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	कथ्यूम नागोरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	देवेन्द्र उद्धव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	केसर देवी लेखराज मल्होत्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती बबीता पति संतोष मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शबीना बी सिद्दिकी (कालेबाबू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	विक्की यादव	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मनोरमा पति रमेशचन्द्र व्यास	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सगीर बैग	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		पार्षद	8	आठ	अफसार खां उर्फ पप्पू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	गोरीशंकर नागुलाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	श्रीमती शशीकला लश्करी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	कैलाशचन्द्र राठी "गुरु"	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सपना नरेन्द्र गेहलोत	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती शोभा जीवन माली	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	शबनम बी मुल्तानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	संजय जोशी	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती विजया कैलाशचंद्र निर्वाणी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	लुकमान हुसैन नागोरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अट्ठारह	मोहम्मद सिद्दीकी नागोरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1726.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, नागदा, जिला उज्जैन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, नागदा, जिला उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	अशोक मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कमलेश चांवड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	शोभा गोपाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रेखा मालविय	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति हुरबी सलीम खां मेव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	शंकर पप्पू प्रजापत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	नूरबानो पति मो. अली	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	जगदीश मिमरोट	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		पार्षद	8	आठ	प्रमोद सिंह चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	विजय पोरवाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	श्रीमती उषा गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती शैहनाज बी फिरोज आजम	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	अर्चना पति अनिल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	राजेश धाकड	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सुनील गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	योगेश मीणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	आशीष बोरा	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	हरिश अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	सुबोध स्वामी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमती प्रेमलता राधेश्याम मकवाना	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	नरेन्द्र कोठारी	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	विजयपटेल	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	सत्यवती कल्याण सिंह कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती विनीता शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	भूपेन्द्रकौर त्रिलोचन सिंह खालसा	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	अशोक कुमार साहनी	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	सुप्यार देवी रामनिवास स्वामी	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	श्रीमती मंजु कुंवर पति दिनेश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	दीनदयाल	निर्दलीय
30		पार्षद	29	उन्तीस	सज्जन सिंह शेखावत	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	संदीप चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32		पार्षद	31	इक्तीस	राजकुमारी सुदेश वीर चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	श्यामु कटारिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
34		पार्षद	33	तैंतीस	श्रीमती चेतना चेतन मिमरोट	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौतीस	सीमा गणेश गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमती गीता यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
37		पार्षद	36	छत्तीस	जयप्रकाश मल्लाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1727.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, बड़नगर, जिला उज्जैन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, बड़नगर जिला उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	मधु अशोक शोभावत	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रेखा राजु सोलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	ममता नितिन तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	आकाश-महेन्द्र उदयावाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	प्रविण निर्मल कुमार बिलाला (लालु)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती रेखा मनोज यादव	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सतीश वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	दीपकुवर हिम्मत सिंह सिसोदिया	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	“सईद पिता मूरताक”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	नरेन्द्र किशनलाल परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	भारत डाबी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	राजल मांगीलाल हरौड़	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	संजिदा बी आबिद कुरेशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मुनव्वर हुसैन	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	निर्मला रविदत्त पोरणिक	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती चन्द्रकला शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	फरीद उद्दीन S/o लियाकत उद्दीन	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	सईद खां	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अट्ठारह	पार्वती दिनेश पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1728.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, खाचरौद, जिला उज्जैन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, खाचरौद, जिला उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	कमलेश अनिल कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	राजेन्द्र धाकड़ (राजु भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	चेतना धाकड़	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	सरिता-अरुण लुणावत	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	जेबुनबी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	तेजुबाई-शंकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	निर्मला राजकुमार बम्बोरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मुकेश S/o गणपत कांकर	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	राधेश्याम बम्बोरीया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	अखिलेश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	निर्मल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती पुष्पा देवी W/o रामचंद्र	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राजेन्द्र गौहर	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	धर्मेन्द्र-चरनजीत परमार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	रबाबबाई-मोहम्मद अली बोहरा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	गौरव शर्मा (शशी)	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	अर्जुन माली	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	मधु मुकेश जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	अतुल वर्धमान चोरडिया	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	उषादेवी सिसोदिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	हेमलता-पंकज निवाल	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	विनोदकुमार जोशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

**अधिसूचना**  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1729.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, तराना, जिला उज्जैन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगर परिषद्, तराना, जिला उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	उमेश शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	आजाद खां	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	शक्तिसिंह परिहार (सोनू)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	करुणा राजेन्द्रसिंह मौर्य	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	इसरार मोहम्मद जागीरदार	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	शान्ति बहादुर बैरागी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सपना अशोक वक्त	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	रितेश मनोहरलाल मुन्दड़ा	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	द्वारकाधीश शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति अर्चना बैरागी रिकेश बैरागी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राधाबाई करणसिंह बागरी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	नानावटी प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती कविता पति मनीष चौहान	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	नईमुदीन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	जितेन्द्र पिता स्व. श्री जगदीश जी धनगर.	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	चन्द्रकांता दिनेशचन्द्र तेनगुरिया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
**( गिरीश शर्मा )**  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

**अधिसूचना**  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1730.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	कैलाशचन्द्र पिता श्री उदाजी मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	लीलाबाई पति रमेशचन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सोना बाई गुर्जर w/o करणसिंह गुर्जर	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	सिंगाराम S/o सिद्धुलाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शांतिलाल राठौर पिता लालजीराम राठौर.	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	किशोरसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मालेकसिंह पिता सिद्धुसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	संजय कुमार (संजु बाबा) पिता रामेश्वर सोनी.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	आत्माराम (देवल पेंटर) पिता भवंरलाल मालवीय.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	सीमा जाल पति मुकेश जाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	कलाबाई-बालाराम मिस्त्री	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति गायत्रीबाई पति सत्यनारायण गामी.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	राजेश पाटीदार पिता छगनलाल पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मांगीलाल गामी पिता छगनलाल गामी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	सौरमबाई पति विक्रमसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्यामूबाई पति नगजीराम धाकड़	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1731.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, उन्हेल, जिला उज्जैन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, उन्हेल, जिला उज्जैन.	अध्यक्ष	-	-	छाया सचिन पाटनी	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	गोपाल नगजी खमोरिया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3		पार्षद	2	दो	नन्दीबाई बलराम	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति चन्द्रकला भेरूलाल सुनेरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	मेहफूस अली सर समाधान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	शांतीबाई रमेशचन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	ललिता नंदेड़ा पति नंदराम नंदेड़ा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	बगदीराम नागुराम नायमा	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	ईश्वरलाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति शांतिबाई रामलाल नंदेड़ा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुरेश सांकला	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	हुसेन शाह वली मोहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	संगीता राजेन्द्र जैन	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	दाउद खान टेन्ट वाले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	चन्दरलाल चौहान	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	नर्मदाबाई निर्भयराम नंदेड़ा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1732.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, नीमच, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, नीमच, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	राकेश 'पप्पू' जैन	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	गंगादेवी बलवंत राव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	शोभारानी विजय बाफना	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रमेश जयनारायण सोनी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	गायत्री रमेशचन्द्र राठौर	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	दिनेश कुमार यादव	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सुशीला बहादुरसिंह	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	राकेश भेरूलाल किलोरिया	भारतीय जनता पार्टी



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	पार्षद	8	आठ	श्रीमति राजू देवी पति संतोष भील	भारतीय जनता पार्टी	
10	पार्षद	9	नौ	श्रीमती राजी बाई पति अशोक	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	विमलाबाई परसराम पटेल	भारतीय जनता पार्टी	
12	पार्षद	11	ग्यारह	मिश्रीलाल रियार	भारतीय जनता पार्टी	
13	पार्षद	12	बारह	ललिता प्रकाशचंद्र मंडवारिया	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	योगेश प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
15	पार्षद	14	चौदह	मीना-राजेश जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	विनोद-जगदीश बोरीवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
17	पार्षद	16	सोलह	सईद चौधरी ( काले भाई )	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
18	पार्षद	17	सत्रह	छाया-वीरेन्द्र जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी	
19	पार्षद	18	अट्ठारह	भारती-राकेश खुआर	भारतीय जनता पार्टी	
20	पार्षद	19	उन्नीस	इकबाल कुरेशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
21	पार्षद	20	बीस	साबिर मसूदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
22	पार्षद	21	इक्कीस	महेन्द्रसिंह लोक्स ( मोनू )	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
23	पार्षद	22	बाईस	शैलेन्द्र-लक्ष्मीनारायण गर्ग	भारतीय जनता पार्टी	
24	पार्षद	23	तेईस	ओमप्रकाश काबरा	भारतीय जनता पार्टी	
25	पार्षद	24	चौबीस	विष्णु बिन्दल "काका"	भारतीय जनता पार्टी	
26	पार्षद	25	पच्चीस	रवि माहेश्वरी	भारतीय जनता पार्टी	
27	पार्षद	26	छब्बीस	आकांक्षा-जीतू तलरेजा	भारतीय जनता पार्टी	
28	पार्षद	27	सत्ताईस	कलाबाई-राधेश्याम पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी	
29	पार्षद	28	अट्ठाईस	ममता कान्हा सोनी	भारतीय जनता पार्टी	
30	पार्षद	29	उन्तीस	आरती मेहता अशोक मेहता	भारतीय जनता पार्टी	
31	पार्षद	30	तीस	मुकेश वर्मा	भारतीय जनता पार्टी	
32	पार्षद	31	इक्तीस	गोदावरी-राजेश लालवानी	भारतीय जनता पार्टी	
33	पार्षद	32	बत्तीस	राजेश अजमेरा	भारतीय जनता पार्टी	
34	पार्षद	33	तैंतीस	रोजी डीसिल्वा	निर्दलीय	
35	पार्षद	34	चौँतीस	विनित जैन ( पाटनी )	भारतीय जनता पार्टी	
36	पार्षद	35	पैंतीस	आशा राकेश गर्ग	भारतीय जनता पार्टी	
37	पार्षद	36	छत्तीस	लता राजू पटेल	भारतीय जनता पार्टी	
38	पार्षद	37	सैंतीस	नसीम बनो उर्फ लप्पो आपा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
39	पार्षद	38	अड़तीस	शारदा बाई-राजू टेलर्स	भारतीय जनता पार्टी	
40	पार्षद	39	उनतालीस	सुमित अहीर	भारतीय जनता पार्टी	
41	पार्षद	40	चालीस	प्रहलाद अहीर	भारतीय जनता पार्टी	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1733.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, जावद, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, जावद, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	सारिका बाबा बोहरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	ईन्द्रबाई लाभचंद्र खटीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	पुष्पा बाई रामेशचन्द्र ग्वाला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	राजेश रामनारायण चंदेल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	पवन गोपाल संघवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	कंकुबाई कमलेश पंचोली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सुभाष चन्द्र मदनलाल पेंटर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	गायत्री भीमराज राठौर (तेली)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	शाकिर अख्तर हुसैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	मोहम्मद नबी छीपा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	कैलाश बाई पति बंशीलाल बग्गड	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अरविंदकुमार फुलचंद्र धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति सीमा रामलाल धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	विनोद कुमार बंकट लाल झँवर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	महेश कुमार निर्भयराम बोहरा (धाकड़).	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मीनाक्षी शिवकुमार त्रिपाठी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1734.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मनासा, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये

गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	केवल अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नगर परिषद्, मनासा, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	-	“यशवंत (राजू भैया) सोनी”	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		अरुणा ताराचंद माली	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो		“गिरजाशंकर शर्मा”	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन		बीना दिनेश कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार		“ओमप्रकाश जगदीशचन्द्र कछावा “एडव्होकेट”.	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच		गणेश कवरलाल राठौर	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः		“वैशाली मनीष सोनी”	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात		“रामनारायण मेघवाल”	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ		प्रिती विजय व्यास “बिल्लू”	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ		नरेन्द्रकुमार मारू (राजू)	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस		“संजय मेहरचंद्र सहगल”	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह		“पंकज मनोहरलाल पोरवाल”	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह		किशोर गंगाराम जोलान्या	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह		“भारती-राजेश वर्मा (सोनी)”	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह		शमीमबी खुशींद शेख	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह		“मंजू हरिश एनीया”	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1735.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कुकडेश्वर, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	केवल अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नगर परिषद्, कुकडेश्वर जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	-	“समरथलाल पटवा”	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	दिलीप वरदीचंद्रजी बुन्दीवाल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	उषा चोधमल पिपलीवाल	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रिंकुकुमार अशोक भानपिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	महेश-राधेश्याम (छोटू टोडावाल)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	“संजय मुजावदिया”	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती कृष्णा कुमारी W/o तेजकरणजी सोनी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	ममता-मुकेश जीगर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	गुड्डीबाई पति भागीरथ (मामा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	रचना पति सुनिल तेजावाला	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	प्रमोद (बाबु लान्डी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	कमलाबाई साहेब	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ललिता-शम्भू दयाल (मिलन)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	“लोकेश तुगनावत”	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	शान्ती लाल गोपी लाल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	बलवंत खिचि	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1736.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, डिकेन, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, डिकेन जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	संगीता श्रवण कुमार पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कन्हैयालाल धन्ना भांभी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	प्रेमबाई गोविन्दराम भील	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	चन्दाबाई-घनश्याम सेन	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सम्पत बाई विष्णु कुमार पंवार	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		पार्षद	5	पांच	नारूलाल पिता रूपा जी भील	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	शारदादेवी गोपालकृष्ण गोरावत	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	दिनेश-चन्द्र-सुरेशचन्द्र	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	हीरालाल गोपी जी गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अयोध्याबाई पति शिवलाल पाटीदार.	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुनिलकुमार-हिरालाल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	ओमप्रकाश भैयालाल जगावत	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	करमाबाई पति हरिसिंह भील	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कृष्णाबाई रमेशचन्द्र पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	कन्हैयालाल पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मुकेशदास पिता गोपालदास बैरागी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1737.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, रतनगढ़, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगर परिषद्, रतनगढ़, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	ओमप्रकाश जमनालाल मूंदडा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	आजाद शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	इन्द्रा-भारत सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	जेनबबाई बोहरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	बनवारी लाल सोनी (एडवोकेट)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	ममता देवी सुनील कुमार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	ओमप्रकाश S/o जगन्नाथ प्रजापत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	गोपाल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सम्पतबाई-शौकीन लाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10		पार्षद	9	नौ	सन्नूबाई माधवदास बैरागी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राकेश चारण	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	गोविन्दराम पिता नन्दकिशोर कोली	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	मनोहरलाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	नाथूलाल भील पिता भैरूलाल भील	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मोहन कुंवर करण सिंह राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	इन्द्राबाई पति तेजपाल मीणा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1738.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सिंगोली, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सिंगोली, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	सुनिता-राजकुमार मेहता	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	जाकीर हुसैन	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	घीसी बाई पति शम्भुलाल सुतार	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	उषादेवी अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	विशाल जैन	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सत्तुलाल पिता मोतीलाल धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	प्रशान्त मलिक	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	रुकमणी देवी-राजीव कुमार व्यास	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रुबिना बी पति फरियाद हुसैन पठान	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	ऊषा बाई कैलाशचन्द्र धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	पारसमल-नाथूलाल गांधी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	नौशाद हुसैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	रानूदेवी जैन W/o रविन्द्र जैन	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुरेश कुमार जैन (बगड़ा)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		पार्षद	14	चौदह	शौकिन कुमार पिता कंवरलाल जी बलाई.	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सम्पतबाई-उदयलाल प्रजापत.	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1739.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, रामपुरा, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, रामपुरा, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	गोविन्द सोनी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	प्रिती जोशी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुभाष चन्द्र-माधवलाल माली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	अमरलाल आर्य	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	राजेन्द्र सोनी पिता मांगीलाल जी सोनी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कमल कुमार गौड़ उस्ताद	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	दीपक अरविन्द मरच्या	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	जितेन्द्र उर्फ जितु पिता ओमप्रकाश जी जागीरदार.	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	प्रमिला रूपेश सारू	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती ललीता W/o त्रिलोक चन्द्र देवड़ा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	शायदा इब्राहीम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	मो. रफीक डागरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	पुष्पाबाई रामप्रसाद मौर्य	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	दिनेश मण्डवारिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	फिरदौस बी मो. अली नियारगर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	धापूबाई मदन राईकुंवर	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1740.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, अठाना, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगर परिषद्, अठाना, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	राकेशकुमार बाबुदास बैरागी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कान्ताबाई बनवारीलाल धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	गोपाल शालुजी भील	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	महेन्द्रसिंह (जीतु बापू)देवीसिंह सिसौदिया.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	कोमल भल्लाराम	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	जीवनबाला प्रेमचन्द माली	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	हुलासीदेवी कैलाश धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	नीरू घनश्याम ओड़	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	सुरेशचन्द्र भैरूलाल प्रजापत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	मुकेश भैरूलाल रेगर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	कौशलया नारायण सोनी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	बगदुगीर घीसागीर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	बाबूलाल शिवलाल धाकड़	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	घीसीबाई सत्यनारायण धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	चंचला मुकेश दुबे	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	धीरेन्द्रसिंह पिता नाहरसिंह राजावत	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1741.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, जीरन, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगर परिषद्, जीरन, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	सीमा-चांदमल राजौरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	वजेराम पिता तोरीराम भील	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	घनश्याम पिता कँवरलाल गायरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	शांतिलाल पिता प्रभूलाल राठौर (हलवाई).	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	विष्णुलाल भीलावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	गुड्डीबाई पति रामचन्द्र सगवारिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	फातेमा पति अली असगर बेहरा	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	कौशल्याबाई पति नन्दकिशोर नाई	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	दिलीप सुथार (छोगा)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	शकुन्तला पति दिलीप कुमार पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	सोहनबाई पति बद्रीलाल दुदावत	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुरेशचन्द्र पाटीदार (मुकाती)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	संतोषबाई पति दशरथ जारेरिया	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मुकेशराव यशवन्तराव मराठा (तावरे)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सुखलाल पिता नारायण अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मधूबाई अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1742.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नयागांव, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, नयागांव, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	चन्द्रकला-सुरेशचन्द्र धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	पन्नालाल-भेरूलाल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	मोईनुद्दीन अल्लाउद्दीन जी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	सुन्दरसिंह-बंशीलाल पाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	वर्षा स्व. अशोक जी सोनी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		पार्षद	5	पांच	गुलाबसिंह-किशनलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	गोपाल श्रवणलाल शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	अनुराधा-ललित खारोल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्री लाल-खेमराज गायरी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	चांदमल पिता बगदीराम जी मेघलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	जशोदा बाई रामविलास	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सागर बाई-नारूलाल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रामशोभाबाई रामप्रसाद धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	फूल कुवंर पति राजमल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	गायत्री-कमलेश धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुरेशचन्द्र-छगन भील	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1743—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सरवनिया महाराज, जिला नीमच के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सरवनिया महाराज, जिला नीमच.	अध्यक्ष	-	-	पुखराज सुरेशचंद्र जाट	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मधुबाई-कन्हैयालाल पाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	दिनेश चन्द्र-मोहनलाल पुरोहित	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	दिनेश कुमार-प्रभुलाल खटीक	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सुगन-प्रकाश चंद्र मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	घीसालाल-भंवरलाल	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	अर्जुन गौतम माली	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8		पार्षद	7	सात	रघुवीरसिंह सरदारसिंह रणावत	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	जीतेन्द्रपाल फूलचंदपाल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	निर्मलाबाई पति रमेशचन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	रीना W/o सुनिल पाटीदार	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	चांद बी फजलु रहमान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सुगना देवी-जगदीश चंद्र कुन्हारा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	सुरजीबाई उर्फ हरजीबाई W/o जगदीश खटिक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	भेरूलाल पिता बगदीराम	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कंवरलाल-लक्ष्मण पाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.